

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †5120

सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन स्थलों के बीच संपर्क

†5120. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि बेहतर रेलवे, सड़क परिवहन के माध्यम से पर्यटन स्थलों और मुख्य शहरों, कस्बों और गांवों के बीच अच्छा संपर्क हमारे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और युवाओं तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन में बहुत मदद मिलेगी;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पहल की गई है/की जा रही है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : जी, हां महोदय । रेलवे, सड़क परिवहन के माध्यम से पर्यटन स्थलों और मुख्य शहरों, कस्बों और गांवों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी, हमारे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने, युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करने, उन्हें और अधिक सुलभ बनाने तथा उन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन के बेहतर अनुभव प्रदान करने में सफल होगी ।

(ख) और (ग) : देश के विभिन्न भागों में स्थित पर्यटन स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

1. पर्यटन मंत्रालय ने सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए, पहले चरण में प्रतिष्ठित स्थलों और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 पर्यटन स्थलों की सूची और बाद में दूसरे चरण में 114 मार्गों की सूची सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राज्य सरकार और सीमा सड़क संगठन के साथ साझा की थी ।

2. आखरी छोर तक सम्पर्कता स्वदेश दर्शन योजना के स्वीकार्य घटकों में से एक है । स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रकाश व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, लॉग हट्स, अंतिम मील तक कनेक्टिविटी जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं ।

3. पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत पर्यटन गंतव्यों/स्थलों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है ।

4. पर्यटन मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है और निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से देश के भीतर पर्यटन स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है: -

- (i) देश के भीतर पर्यटन स्थलों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन विकास से संबंधित अंतर-मंत्रालयी/विभागीय मामलों के समाधान के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति (आईएमसीसीटीएस) का गठन ।
- (ii) सचिव (पर्यटन), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है । पर्यटन क्षेत्रीय योजना के लिए सचिवों के क्षेत्रीय समूहों (एसजीओएस) की सिफारिशों के अनुसार पर्यटन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार टास्क फोर्स में नागरिक उड्डयन, विदेश, गृह मंत्रालय, रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, संस्कृति, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास (डोनर), पर्यावरण और वन मंत्रालय और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि शामिल हैं ।
